



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी। प्रेस - विज्ञप्ति

दिनांक- 30.12.2022

दिनांक 23.10.2022 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत स्थित एसएसपीजी हास्पिटल कबीर चौरा से हुई मोटर साइकिल होण्डा लियो की चोरी व दिनांक 27.12.2022 को थाना आदमपुर क्षेत्र से हुई मोटर साइकिल की चोरी की घटना को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुये अलग-अलग थाना क्षेत्रों से मोटर साइकिलों की चोरी कर मोटर साइकिल की पहचान को छिपाने के लिए अलग-अलग पार्ट में काटकर काटे गये पार्ट्स की बिक्री कर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ लेने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की मोटर साइकिल व मोटर साइकिल के पार्ट्स को बरामद करने में सफलता प्राप्त किया गया।

1- श्रीमान् पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व निरीक्षक श्री भरत उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.11.2022 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 116/22 धारा 379 भादवि से संबंधित चोरी गयी मोटर साइकिल UP 65 CM 5032 व थाना आदमपुर पर दिनांक 27.12.2022 को पंजीकृत मु0अ0सं0 152/22 धारा 379 भादवि से संबंधित चोरी गयी मोटर साइकिल संख्या UP 65 DL 6389 की चोरी कर मोटर साइकिल की पहचान को छिपाने के लिए मोटर साइकिल को अलग-अलग टुकड़ों में काटकर काटे गये टुकड़ों को राह चलते कबाड़ियों को बेच कर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लेने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया गया तथा उनके कब्जे से व उनकी निशानदेही पर चोरी गयी मोटर साइकिल व मोटर साइकिल के टुकड़ों को बरामद करने में सफलता प्राप्त किया गया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

2- पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 116/22 धारा 379/411/413/414 IPC भादवि थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 152/22 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

3- गिरफ्तारी का स्थान व समय:- हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज के पास दिनांक 30.12.2022 समय 11.05 बजे।

4- गिरफ्तार अपराधियों का विवरण-

1. हबीबउल रहमान पुत्र स्व0 महफुजउर्रहमान उम्र 27 वर्ष निवासी जे 4/22 बी-1 शेषमन बाजार राजापुरा रोड़ थाना जैतपुरा वाराणसी।
2. हसीन अहमद पुत्र अलाउद्दीन उम्र 33 वर्ष नि0 जे 4/57 हैसतल्ले थाना जैतपुरा वाराणसी।
3. मनोज कुमार मौर्य उर्फ बिककी पुत्र स्व0 मंगरु प्रसाद मौर्य उम्र 32 वर्ष नि0 जे 35/67 के-2 शैलपुत्री रोड़ जलालीपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी।

5- आपराधिक इतिहास- अभियुक्तहबीबउल रहमान पुत्र स्व0 महफुजउर्रहमान उपरोक्त

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	591/21	379, 411, 413, 414 भादवि	लंका
2.	585/21	379/411 भादवि	लंका

अन्य अपराधियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य थानों से की जा रही है।

6. विवरण पूछताछ अभियुक्त:- अभियुक्तगण से पूछताछ पर बताये कि हम लोगों का एक गिरोह है, हम लोगों को घरवालों से खर्च के लिए पर्याप्त रुपये नहीं मिल पाता है, जिस कारण से हम लोगों ने एक गिरोह बनाकर वाराणसी शहर के विभिन्न स्थानों से गाड़ियों को चुरा लेते हैं और छिपाकर रख देते हैं, चुराई गयी गाड़ियों को बिक्री करने पर ग्राहकों द्वारा गाड़ियों का कागजात की मांग करने पर बिक्री करने में काफी समस्या होती है, इसलिये हम लोग गाड़ियों को काटकर गाड़ियों के कई टुकड़े कर धीरे-धीरे एक-एक टुकड़े को राह

चलते कबाड़ियों को बेचकर पैसा कमाते हैं, और प्राप्त पैसे से हम लोग विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आज हम लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है।

7- विवरण बरामदगी – (1) एक अदद मोटर साइकिल सं० UP 65 CM 5032 , चेचिस नं० ME4JC712MFT032757 इंजन नं० JC71ET0090551 का इंजन, दो अदद चक्का, एक अदद साइलेन्सर, दो अदद नं० प्लेट थाना कोतवाली कमि० वाराणसी से संबंधित।

(2) एक अदद मोटर साइकिल सं० UP 65 DL 6389, चेचिस नं० MBLHAW080KHB83058 व इंजन नं० HA10AGKHBE8869 थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित।

8- गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. निरीक्षक श्री भरत उपाध्याय प्र०नि० कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ०नि० श्री दिलेश कुमार सरोज चौकी प्रभारी कबीर चौरा, थाना कोतवाली कमि० वाराणसी।
3. उ०नि० श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह चौकी प्रभारी अमियामण्डी, थाना कोतवाली कमि० वाराणसी
4. उ०नि० श्री कृष्ण देव उपाध्याय, थाना कोतवाली कमि० वाराणसी।
5. हे०का० जितेन्द्र यादव, का० अखिलेश कुमार व का० शिवम भारती थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त,
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी।

